people are always open to try new

things and want that their favourite pastry or a cake should be present-

ed to them in an interesting way. So

presentation plays a very important

role and for that you need to think

out of the box," says chef Mathur, as

he readies his cooking station with

The Imperial as the executive pastry

chef after touring across the globe,

collecting accolades and creating

wonders. One of his famed creations

is the 36 ft tall cake that made an

entry to the Limca Book of Records.

That was to celebrate the 10th

anniversary of the Delhi hotel I was

working with in 1998," he tells us in

a humble tone. The chef is ready with

the mix of egg yolk and sugar

brought to a certain soft consisten-

cy on a boiler that serves as a basic

mix for tiramisu. The purpose of the

cookout is to make many believe that

certain desserts can be easily pre-

pared at home, if you know the

basics. So if you have plans to sur-

prise your partner with some self-

made delicacy this Valentine's Day.

chef Mathur is the man to guide you.

late and flavours of coffee spread

around, inviting a few other guests

to discard their cosy corners and be

part of the activity, there is more

buzz around the cooking station.

And we never thought we would dis-

cover the true meaning of tiramisu

As the heavenly aroma of choco-

Chef Mathur has recently joined

the ingredients.

### **GROVY EXPORTS & MARKETING LTD.**

Regd. Office: 131, MOTI BAZAR CHANDNI CHOWK, DELHI - 110006 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (PROVISIONAL) FOR THE 3RD QUARTER ENDED ON 31.12.2014 3 Months ended Year to date figures Audited 31.12.14 31.12.13 31.12.14 31.12.13 31.03.14 17.41 6.11 20.64 17.28 1.95 1.19 0.22 2.89 0.58 2.31 140.00 0.00 15.14 1.20 0.00 0.45 0.75 0.00 13.94 0.00 13.94 140.00 162.37 Other Income Total Expenditure 20.00 5.53 0.00 1.35 4.18 0.00 14.47 0.00 14.47 140.00 162.90 1.03 c) Other Expenditure Profit (+)/ loss (-)before tax (1+2-3-4) Provision For Taxation Provision For Taxation
Net Profit (+)/ loss(-) (5-6)
Paid up Equity Share Capital (Rs.10 each)
Reserves excluding Revaluation Reserves
Basic & Diluted EFA
Aggregate of Non Promoter Shareholding
a) No. of Shares
b) Percentage Of Share holding

TES:
The above results were taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 12.02.2015.
The segment wise reporting as defined in Accounting Standard-17 is not applicable to the company.
There is no complaints received / pending during the quarter.
The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the unaudited financial result for the three months ended on 31st. December 2014 in terms of Clause 41 of the listing agreement with the catalog of the company have the catalog of the

For GROVY EXPORTS & MARKETING LTD

Place: New Delhi Prakash Chand Jalan

#### **MILITARY ENGINEER SERVICES** e-PROCUREMENT TENDER FOR HQ CWE (AF) PALAM, DELHI CANTT-10

HQ Commander Works Engineer (AF) Palam, Delhi Cantt-10 on behalf of the President of India invites electronic bids from MES enlisted contractors/un-enlisted contractors through NIC e-procurement solution for the works as detailed here under. The NIT details, eligibility criteria of tender and other related documents can be downloaded from the CPP Portal website eprocuremes.gov.in. The prospective/likely contractors are requested to look up the website. These are e-Tenders and therefore manual applications/bids for these tenders will not be accepted under any circumstances. Only electronic applications/bids shall be accepted.

Srl. No. 1 Tender No and Name of Work: CA No: CWE/PM/SP-100/2014-15: ADDN/ALTN CUM REAPIRS TO COMMON AREA OF TRAINING FACILITY AT SUBROTO PARK UNDER GE. (AF) SUBROTO PARK. DELHI CANTT-10 Cost of work at MR: Rs. 14.00 Lakhs EMD: Rs. 28,000/- Date of publishing: 16 Feb 15 Last date of bid submission: 16 Mar 15

Note:- For more details please visit our website

www.eprocuremes.gov.in

davp 10102/11/1792/1415

aking your own cake and eat-Sweet somethings Bing it, too, isn't as easy as it sounds. But as you watch him whip the cream, add melted chocolate to the mix in measured portions and turn it into a marvellous dessert in a few minutes, you somehow feel more confident about your next Coming up with that 'bake job.' Chef Harminder Mathur is no less than an artist when it perfect tiramisu or comes to exploring themes and ideas to craft a dessert (read cake, pie chocolate mousse isn't a or a pastry). He is one of those few chefs who don't need to scan the Herculean task if you Internet or an inspiration to create something out of the box. "Baking is know your basics, very much like art, you need to be different with everything that you create. When it comes to dessert,

says chef **HARMINDER** MATHUR. In a cook-out session, he explains DIVYA KAUSHIK the

a wonderful dessert

simple ways of creating Italian, tiramisu means 'pick me up' or 'lift me up', so it was traditionally given to new mothers to make them feel better. Not many people are aware of this fact, only a few

here. A French lady, an ardent fan of India, shares with us that the Italian dessert was given to new mothers, soon after the delivery of the baby, to make them feel better. "In Italian, tiramisu means 'pick me up' or 'lift me up' so it was traditionally given to new mothers to make them feel better. Not even many Italians know about this, but since I have a few friends in France and I have been there many times, I know about this," she informs.

The chef adds pre-soaked gelatin mixed in coffee flavoured liquor to the yolk and sugar mix. To set the base of the dessert he soaks some ladyfingers, not the vegetable but a sort of cookie, in coffee flavour liquor and sugar syrup. He layers the glass with soaked ladyfingers and his prepared mixture, perfectly whipped to form a creamy texture. In just a few minutes, the tiramisu is sitting pretty in front of us with a piece of cherry resting like a crown on it. "You need not freeze it but refrigerate it and serve it chilled," says the chef and he starts pulling out ingredients for chocolate mousse. "Coming up with a perfect dessert is no trick. You should know the balance of flavours and proportion of ingredients," says the chef, who has also come up with a lot of fusion recipes that mix traditional Indian

> Like rasmalai terrine — a chocolate terrine served with chunks of rasmalai and gulab jamun cheese cake.

sweet and European delicacies.

"There are so many experiments happening in desserts now and there are takers for every new thing. But people are more health conscious now so we also have to come up with recipes for those who want to indulge without piling on calories," he

Expect some surprises from the chef as he is all set with some new ideas to offer to his guests. "I am passionate about creating something new. I will soon add a lot to our list of desserts," he says with the smile. photos Sanjeev Kumar

### PRAKASH WOOLLEN MILLS

Regd. Office.:18KM Stone, Dehi Moradabad Road, NH-24, Village Amhera, Disti. J.P. Nagar-244 102, U.P. Phones: 0591-2223008/18, Fax-0591-2223009,

CIN-L17113UP1979PLC004804, Email:info@prakashwoollen.com,website:prakashwoollen.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31-12-2014

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31-12-2014 (Rs. in lacs)								
	Part I	3 Months ended	Preceding 3 Months	Corresponding 3 months ended	Year to date figures for current	Year to date figures for the	Previous year ended	
S. No	Particulars	31-12-14	ended 30-09-14	31-12-13 in the previous	period ended	preceding	31-03-2014	
"			(Unaudited)	Landscont	31-12-14 (Unaudited)	31-12-13	(Audited)	
H			(4	(Onabulted)	(Ondodiad)	(Unaudited)		
1.	Income from Operations	0700 07	2470.07	2000 40	7040.04	740444		
	(a) Net Sales/ Income from Operations (Net of Excise Duty)	3786.37	2478.87	2996.46	7910.91	7194.41	8118.21	
	(b) Other Operating Income	_	_	_	_	_	_	
_	Yotal Income from Operations (Net)	3786.37	2478.87	2996.46	7910.91	7194.41	8118.21	
2.	Expenses a) Cost of materials consumed	1707.57	1364.61	1705.13	4515 70	4476.84	5997.44	
	b) Purchases of stock-in-trade		2.39	59.33	55.91	70.86	89.98	
	c)Changes in inventories of finished	.,		00.00	00.01	, 5.55		
	goods, work-in progress and stock-in-trade	1082.48	588.61	503.49	1333.97	860.08	(210.30)	
	d) Employee benefits expense     e) Depreciation and amortisation	63.69	72.86	62.70	203.98	186.43	255.02	
	expense	96.45	82.55	61.81	260.78	185.40	249.49	
	f) Other expenses	553.65	276.14	388.53	1149.44	979.40	1222.42	
	Total Expenses	3550.99	2387.16	2780.99	7519.78	6759.01	7604.05	
3.	Profit/(Loss)from Operations							
	before Other Income, Finance costs & Exceptional Items(1-2	235.38	91.71	215,47	391.13	435.40	514.16	
4.	Other Income	3.70	7.81	3.86	16.91	5.98	8.23	
5.	Profit/(Loss) from ordinary							
ı	activities before finance costs and exceptional items(3+4)		99.52	219.33	408.04	441.38	522.39	
6.	Finance Costs	(30.97)	(10.82)	(50.58)	(80.32)	(147.50)	(197.57)	
7.	Profit/(Loss) from ordinary activities		, ,	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(,	, , , , , ,	(,	
ı	after finance costs but before Exceptional items(5 +6)	208.11	88.70	168.75	327.72	293.88	324.82	
8.	Exceptional Items			100.75		200.00	324.02	
9.	Profit(Loss) from ordinary	208.11	88.70	168.75	327.72	293.88	324.82	
10.	activities before tax (7+8) Tax Expense	(67.54)	(29.79)	(47.75)	(111.33)	(85.47)	(101.45)	
11.	1	140.57	58.91	121.00	216.39	208.41	223.37	
12	activities after tax (9+10) Extraordinary Items							
	(Netoftax expenseRs.inlacs)							
13	1	140.57	58.91	121.00	216.39	208.41	223.37	
	Share of Profit / (Loss) for associates* Minority interest*						[	
16	Net profit/(Loss) after taxes, Minority							
	interest and Share of Profit/(Loss) of associates(13+14+15)*	140.57	58.91	121.00	216.39	208.41	222 27	
17.		1025.98	1025.98	934.59	1025.98	934.59	223.37 1025.98	
18	(Face value of Rs 107- per share )							
1	as per belance sheet of previous accounting year.						1556.17	
19	Earnings Per Share   (Before Extraordinary items)(NotArrualised)							
l	a) Basic	1.37	0.57	1.32	2.11	3.29	3.11	
19	b) Diluted 	1.37	0.57	1.32	2.11	3.29	3.11	
l	(After Extraordinary items)(NotAnnualised) a) Basic	1.37	0.57	1 20		2.00	0.44	
	b) Diluted	1.37	0.57	1.32	2.11 2.11	3.29	3.11 3.11	
A	Partil Particulars of Shareholding	-						
1.	Public Shareholding	000000						
l	- Number of Shares - Percentage of Shareholding	3808230 37.12%	3799549 37.03%	2345850 25.10%	3808230 37.12%	2345850 25.10%	3259750 31.77%	
2	Promoters and Promoter Group shareholding **	07.1270	37.03%	25.1076	37,1270	23.10%	31.7770	
	a) Pledged/Encumbered - Number of Shares	NII	N/II	KIII	MIII			
	- Number of Shares - Percentage of shares (as a % of the	NIL	NIL	NIF	NI.	N IL	NIL I	
	total shareholding of promoter and promoter group) - Percentage of shares							
	- Percentage of shares' (as a %) of the total share capital	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
	of the company) b) Non-Encumbered				Į.	İ		
	- Number of Shares	6451520	6460201	7000000	6451520	7000000	7000000	
	- Percentage of shares (as a % of the total shareholding of the	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	promoter and promoter group) - Percentage of shares	62.88%	62.97%	74.90%	62.88%	74.90%	E0 220/	
	promoter and promoter group)  Percentage of shares [as a % of the total share capital of the company)	JZ.30 /8	02.0170	77.80%	02.0079	74.90%	68.23%	
<u></u>	,	Particulars	·	·	3 Months	ended (31-12	2-2014)	
-	B INVESTOR COMPLAINTS				O MOREITS	211400 (3121Z		
1	- Pending at the beginning of					NIL		

NOTES: 1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on 12th February, 2015. 2. The company is engaged in the blankets business, therefore, there is only one reportable segment in accordance with the Accounting Standards on Segment Reporting (AS17). 3. The Blankets business is seasonal in nature and accordingly financial results for the quarter are not representative of the whole year. 4. The Company has charged depreciation based on the revised remaining useful life of the assets as per the requirement of Schedule II of the Companies Act, 2013 effective from April 1, 2014. Due to the above, depreciation charge for the quarter and period ended December 31, 2014 is higher by Rs.28.12 lac and Rs.64.12 lac respectively Further, based on transitional provision provided in note 7(b) of Schedule II, an amount of Rs.104.49 Iac (net of Deferred Tax) has been adjusted with retained earnings in the first quarter

Pending at the beginning of the quarter Received during the quarter Disposed of during the quarter

Place: Village Amhera (Amroha)

Date: 12-02-2015

Remaining unresolved at the end of the quarter

By Order of The Board For Prakash Woollen Mills Limited Sd/-

Vijay Kumar Gupta Whole Time Director & CFO DIN No 00335325



Indulge in lavish Western spread featuring citrus marinated Norwegian salmon, rosemary lamb chops, date caramel pie and more at West View, ITC Maurya. Or enjoy an exotic buffet of global delicacies like pan-fried tuna steak, crab linguini, rich chocolate fondant, raspberry and strawberry sorbets at The Pavilion. You can also try an exclusive meal with your partner at Tian, the Asian cuisine studio that offers unique flavours. Pricing: ₹11,000 per couple (West View and Tian), ₹3,500 per person (The Pavilion).

Go Sufi this Valentines by giving Gyour loved one a sufi dining experience at Sufiaana by Cherish. The restaurant offers the flavour of the Persian, Arabic and Turkish cuisine with live sufi band performance. The menu offers an array of dishes like rubyan mal'i,

tabbouleh, khayar bi laban, Peshawari barra.



Regency has come up with special Valentine's Day dining offers at all of its restaurants. They have also arranged for a Valentine's selfie

otel Hyatt

experience where diners can win a diamond ring and also a free dinner. Pricing: ₹3,000 to ₹50,000 per person



old Italian ladies

can tell you

this'

chicken *shish taouk*, chicken shawarma, chelo kebab, Iranian mahi kebab, jawaneh dajaj mal'i, gosht Peshawari, paneer aur kimam ke kofte, laham kabsa, Iranian *pilaf*, rose *kheer* and baklava to name a few. Distinctive flavours, bold spices and rich

aroma will win the heart of any foodie.



'Opéra has given a Lheart shape to the Fraisier cake, a biscuitbased, iam and mousseline cream-filled delight, with a thin shade of white chocolate and decorated with fresh strawberries. "It is the

season for strawberries. And, just like love, they are sweet, enchanting and invigorating," says chef Amit Sinha.

#### CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Regd. Office :456, Aggarwal Metro Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

website: www.cubicalrealtors.com, E-mail: cubfinser@yahoo.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3RD QUARTER AND 9 MONTHS ENDED 31.12.2014

(Rs. In Lacs)									
SI.			Unaudited						
No.		PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
			12/31/2014	9/30/2014	12/31/2013	12/31/2014	12/31/2013	3/31/2014	
1		Net Income from Operations	71.08	275.57	52.57	453.07	108.78	40.32	
2		Other Operating Income	17.68	14.69	0	43.85	0		
:		Total Income from Operation (1 + 2)	88.76	290.26	52.57	496.92	108.78	40.32	
		Expenditure							
- 10	(i)	Increase/decrease in stock in trade and							
		work in progress	281.15	89.14	0	369.1	0		
- 10	(ii)	Purchase of traded goods	0	118.52	0	204.48	0	20.37	
- 10	(iii)	Employees cost	1.48	1.71	1.74	4.86	4.76	10.26	
- 10	(iv)	Depreciation	0.02	0.03	0.03	0.07	0.08	0.11	
- 10	(v)	Other expenditure	0.62	1.75	21.30	22.01	25.45	6.05	
		Total (i to v)	283.27	211.15	23.07	600.52	30.29	36.79	
		Profit from Operations before other Income							
- [		Interest and Exceptional items	(194.51)	79.11	29.50	(103.60)	78.49	3.53	
		Other Income	0.58	0	0.44	0.58	0.44	0.37	
		Profit beofre Interest and Exceptional items	(193.93)	79.11	29.94	(103.02)	78.93	3.90	
		Interest							
		Profit after interest but before Exceptional items	(193.93)	79.11	29.94	(103.02)	78.93	3.90	
		Exceptional items	0	0	0	Ó	0		
П		Profit from Ordinary Activities before Tax	(193.93)	79.11	29.94	(103.02)	78.93	3.90	
<u> </u>		Provision for Taxation	` '						
- 14	(a)	Current Tax		-3.65	-		-	1.23	
3 l	,	Net Profit from ordinary activities after tax (12-13)	(193.93)	82.76	29.94	(103.02)	78.93	2.67	
4		Extraordinary items (net of tax expenses)	` ′			, ,			
5		Net Profit / Loss for the period (13-14)	(193.93)	82.76	29.94	(103.02)	78.93	2.67	
3		Paid-up equity share capital (Face Value	, ,						
		of equity share Rs.10/- each)	0	0	1303.40	0	1303.40	1,303.40	
		Paid-up equity share capital (Face Value							
		of equity share Rs.2/- each)	1303.40	1303.40	0.00	1303.40	0.00	(	
7		Reserves excluding Revaluation Reserves							
3 I		Earning Per Share (EPS) (Rs.)							
- 1	(i)	Basic / Diluted EPS before Extraordinary items	-1.49	0.63	0.23	-0.79	0.61	0.02	
	(ii)	Basic / Diluted EPS after Extraordinary items	-1.49	0.63	0.23	-0.79	0.61	0.02	
9	,	Public shareholding							
		- Number of shares	48351775	48351775	9670355	48351775	9670355	9670355	
		- Percentage of shareholding	74.19	74.19	74.19	74.19	74.19	74.19	
Ы		Promoters and Promoter group shareholding							
- 1	a)	Pledged/Encumbered							
ď	~,	- Number of shares		_			_		
		- Percentage of shares (as a % of the total share		_			_		
		holding of promoter and promoter group)							
		- Percentage of shares (as a % of the total share							
		capital of the company)	_				_		
- I	o)	Non-Encumbered							
l'	-/	- Number of shares	16818225	16818225	3363645	16818225	3363645	3363645	
		- Percentage of shares (as a % of the total share	10010220	10010220	0000070	10010220	5500045	0000040	
		holding of promoter and promoter group)	100	100	100	100	100	100	
		- Percentage of shares (as a % of the total share	100	100	100	100	100	100	
		capital of the company)	25.81	25.81	25.81	25.81	25.81	25.81	
		Loabitat of the company)	∠0.81	∠ე.81	L ∠5.81	25.61	∠5.61	∠5.8	

DATED: 12TH FEB., 2015

The financial results for the quarter ended 31.12.2014 were approved and adopted in the meeting of Board of Directors held

on 12th February, 2015. The Auditors have carried out "Limited Review" of the above results. Segment reporting is not applicable as the company activity falls within a single business segment

No share holder complaints/grievances has been received during the above referred quarter, and no complaint/grievance are lying unresolved at the end of the guarter ended on 31.12.2014. Current Tax and Deferred Tax provision will be made at the time of finalisation of accounts.

The equity share of Rs. 10/- each has been sub-divided into 5 eagity shares of Rs. 2/- each w.e.f. 26-4-2014.

Previous period's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary. Negative figures have been shown in brackets

On behalf of the Board for CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED (ASHWANI K. GUPTA) MANAGING DIRECTOR

## STRAWBERRIES EVEREST WITH TIRAMISU ETERNAL SNOW

INGREDIENTS	
Fresh strawberries	120 gms
Cointreau	10 ml
Sugar icing	2 gms
Tiramisu ice cream	60 gms
Mascarpone cream	60 gms
White chocolate shaving	10 gms
Rose white chocolate curl	5 gms
Chocolate cookies	2
Raspberry sauce	30 ml

**METHOD** Clean and cut the strawberries in four pieces. Place them in a cup.

Spread the cointreau and icing sugar evenly on it.

Add the tiramisu ice cream and then cream on top.

Place white chocolate shavings on top of it.

Place the curl on top and two cookies on

the side. Place

raspberry sauce on the other side in a shorter glass and serve.

Courtesy chef Sunil Tomar, Storm Bar & Grill

एडमिशन अलर्ट



### एसएलआईईटी में दाखिले के लिए करें आवेदन

नई दिल्ली। संत लौंगोवाल इंस्टीट्वूट ऑफ इंजीनिवरिंग एंड टेक्नोलॉगी (एसएल आईईटी) ने बैचकर और मास्टर के विधिन्न पाठवकमों में दाखिले के लिए

पाठ्यमा म दाख्ल के लिए आबंदन आमंत्रित किए हैं। अगर आप बेचलर वा मास्टर डिडी फरना पाड़ते हैं, तो आवंदन कर सकते हैं। आवंदन की ऑतम गरीख 31 मार्च है। पाठ्यका से संबंधित जानकारी ये

य कोर्स और कुल सीटें-

फड़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर साइंस एंड ईजीनियरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड . विद्वकल एंड इंस्ट्रयूमेन्टेशन

मैकेनिकल हंजीनियरिंग सीविल इंजीनियरिंग

चयन प्रक्रिया

• स्नातक के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 'ऑल झेंडेबा एसएलआईईटी एटेस टेस्ट' देना होगा और फिर कटऑफ के आधार पर वाखिला होगा। • वहीं स्नातकोत्तर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और प्रप डिस्कशन के आधार पर

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट (www.sliet.net.in) पर जाक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आवदन कर सकत है। आवदन करते समय अपना फोटो, स्कैन किया हुआ स्मिक्टर व अन्य दस्ताविज साथ में रखें। आवेदन सुरुक : सामान्य वर्ग के खात्रों के लिए 1200/-रुपये और अत्राज्ञों के लिए 800/-रुपये

श्रात्राओं क लिए १६००/-२०४व। वहीं एससी/एसदी ( छात्र और छाताओं ) के लिए ६००/-रुपये। महत्त्वपूर्ण तारीखें-• आवेदन करने की अंतिम तारीखः 31 मार्च 2015 • प्रवेश परीक्षा की तारीखः 26

- प्रवश पराक्षा का काराव्य : 26 अग्रेल 2015 परिणाम की घोषणा होती : 11 मई 2015 अधिक जानकारी जां-फोव : 91 9815048837,

01672-280072

हिन्दुस्तान जॉब्स



### एम्स जोधपुर में मरेंगे जुनि. रेजिडेंट के 30 पद

आद्यावज्ञान संस्थान (गुम्म), जोधपुर ने जुनियर रिजिडेंट के 30 पटों पर रिक्तियों घेषित की हैं। ये नियुक्तियां क्लिनिकल विभाग के लिए 12 महीने के अनुबंध के ारार 12 महान के अनुष्य क आधार पर की जाएंगी। एप्स, जोधपुर इसके लिए बॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन करेगा। योग्य उम्मीदवार 12 फरवरी को निवारित पते पर पहुँच कर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। योग्यता, अनुभव और आवेदन प्रक्रिया संबंधी अन्य जानकारियों पर एक

जूनियर रेजिडेंट (विलनिक), कुल पद : 30 रिक्तियों का वर्गीकरण : अनारक्षित-15, ओबीसी-7, एससी-5, एसटी-3

प्राप्त हो। इसके अलावा अनिवार्य रोटरी इंटर्नीशप को पूस किया हो। आबु सीमा (31 जनवरी 2015

का ) अभिकतम 30 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को पांच साल और ओबीसी उम्मीदवार को आब सीमा में तीन साल की छूट प्राप्त है। अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के निगमों के अनुसार छूट सरकार के निवयों के अनुसार व् मिलेगी। **वेतन** : 50,000 रुपवे प्रतिमाह

**चयन :** योग्व जम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया

#### आवेदन शुल्क

- अनारधित और ओबीसी आवेदकों के लिए 1,000 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 800 रुपये।
- इस शुल्क का भुगतान 'रिक्रटमेंट ऑफ एम्स, जोधपुर' के पक्ष में जोधपुर में देव डीडी से करना होगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

(www.almsjedipal.am.ay होमपेन पर बाई तरफ 'रिकूटमेंट ऑप्यान' पर किलक करें। इसके बाद वहीं पर नजर कराइसक बाद वहा पर नजर आ स्त्रे 'रिकूटमेंट नोटिस' पर विस्तक कर दें। अब खुस्तेन वाले नय देवचेन पर 'रिकूटमेंट नेटिस' 'र्पाचक के गीचे' वॉक-न- इंटरण्य की रिकूटमेंट दु द् पोस्ट्स ऑफ जूनियर रेजिडेंट्स ऑन कॉन्ट्रिकट वीस्तर फॉर ए पीरिवड ऑफ 12 मध्या ऐर भारतह अग्रेस १२ मध्य एट एम्स, जोवपुर ऑन 12 करवरी' के नीचे दिए गए "डाउनलोड एप्लिकेशन फॉर्म' पर क्लिक करें। ● ऐसा करने पर आवेदन फॉर्म

खुल नाएगा। अब फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उसमें एटआउट निकाल और उसमें मांगी गई शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्म दिथि, पिता का नाम, वर्ग संबंधी सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरें और निधारित स्थान पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो

#### इंटरब्यू के दिन ये दस्तावेज ਗਲਦੀ

- भरा हुआ आवेदन फॉर्म, प्रमाणवत्र, जन्म प्रमाणवत्र, दो पासपोटं साइन फोटो, शैक्षणिक योज्यता से संबंधित प्रमाणपत्र, इंटर्निशेष सर्टिषिकेट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्टेशन सटिंफिकेट, जति
- रिवार्ट्रशन सर्टिफिकेट, जाति और अनुभाव प्रांदि से संबंधित प्रमाणरात्र। सभी प्रमाणपात्रों की फोटोकिपी को सेच्फ अटेस्ट करें। इटाब्यू की त्रिषि = 12 फरवरी 2015 ( सुबह 9 बजे से ) इटाब्यू का स्थान : मेडिकल कॉलन ऑफ एस, जोपपुर, राजन्यान

वेबसङ्घ :

श्रद्धांजलि शवयात्रा, उठावनी, शोकसभा एवं पुण्यतिथि

B/W ₹40 प्रति वर्ग सेमी. B/W ₹40 प्रात वग समा. 8x5 वर्ग सेनी: Colour ₹50 प्रति वर्ग सेमी. D

गुराबाबार ► B/W ₹50 प्रति वर्ग सेमी. Col. ₹60 प्रति वर्ग सेमी. बकिंग हेत् सम्पर्क करें

म्रादाबाद-8941002050. 7417134445

हिन्दुस्तान 📷 🖟

#### इनरव्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से सीएल गुप्ता फार्म हाउस पर वैलेंटाइन पिकनिक का किया गया आयोजन

# जादू की झप्पी संग किया प्यार का इजहार वैलेंटाइन डे को

इनरव्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से सीएल गुप्ता फार्म डाऊस में गुरुवार को वैलेटाइन पिकनिक का आगोनन किया गया। लाल और उनले गुलाबों और बजुनों से सजे-धजे प्रांगण में महिलाओं ने एक दूसरे को जादू की हाप्यी देकर जार के पर्व की कथाई दी।

इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाब भेंट किए। इसके साथ ही बैलेंटाइन धीम पर एक से बढ़कर हा बराटाइन भाग पर एक ते बढ़कर एक खेलाँ का भरपूर आनंद ठठाया। जहां एक और रोज स्टिक गेम में किसी ने नमकर गुलाब बटोरे वहीं दूसरी ओर कागल के दिल पर डिश्तन का सबसे अधिक बार नाम लिखने वाली महिला ने

आधक बार नामालखन वाला माहला न इनाम जोते। हाऊजी की थीम भी पूरी तरह से वैलेंटाइन पर आधारित थी। नंबर की नरह दिल, चॉकलेट, टैडी आदितमाम प्यार की निशानियां अंकित की गई थीं।

#### वैलेंटाइन डे सेलीब्रेट करने की प्लानिंग

अध्यक्ष ऊषा गुप्ता, सचिव ऋतु, मंजू, मृदुला कोटोवाल, संतोष गुप्ता, रहिम अप्रवाल, संतोष जैन आदि मौजूद थाँ।



। गुप्त कार्म हाउस में इनस्कील क्लब ऑफ मुखदाबाद की सदस्याएं वैलॅटाइन विक्रनिक मनाती हुई।

नई कार्वकारिणी भी हुई गठितः इस

संचालन और संयोजन चंचल वार्णीय ने अवसर पर नई कार्यकारियों भो गठित की कोषाध्यक्ष पद पर मंजू अग्रवाल और गई। जिसमें अध्यक्ष पद पर बजीता अग्रवाल, सचिवपद पर नीतम अग्रवाल,

को तैयार युवा

मुख्यानाद। वैस्टेंटाइन को नादगार बनाने को शहर के पुळ पूरी तरह से तैयार हैं। इतना हो नहीं नए शादी शुदा जोडों ने भी इस दिन को खास बनाने की प्लाविंग कर ली है।

हुए हुए ने के दिन क्या स्वाप्त कर स्वित्त के हैं है तो फिता ने पिकतिक स्थाट कर ना कर के स्वाप्त है तो फिता ने पिकतिक स्थाट कर नाकर इसिंदित के के प्रमुप्त में हैं है तो फिता ने प्रमुप्त के स्वाप्त ने के हैं के एक मिता ने के स्वाप्त ने के स्वाप्त ने के स्वेत में हैं के स्वाप्त ने के स्वेत में हैं के स्वाप्त में में हों के स्वाप्त हों के में स्वाप्त एक्स हैं। माम सुवाओं ने के सभी में के स्वाप्त में में के स्वाप्त में में के स्वाप्त में में के स्वाप्त में स्वाप्त में के स्वाप्त में स्वाप

गई है। यवाओं ने इसके लिए सबह से ने का पुंचाजा न इसके लिए सुंचा स लेकर देर रात तक एंटरटेनमेंट का प्लान तैयार किया है। उन्होंने इस दिन को यादगार बनाने के लिए दोस्तों संग खास इंतजाम किए हैं।

### केंद्रों पर पहुंचे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र

मुरुवार को यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जीआईसी से बिभिन्न केंद्रों तक पहुंचाए गा। अहर के केंदों के परीका ल गण अहर के कहा के पराश व्यवस्थापक स्कूल वैन में स्वरं प्रश्न पत्र लेने पहुंचे जबकि देहात के केंद्रों पर कालेज की बर्मों में प्रश्न पत्र भेजे गए।

देळात के केंद्रों पर प्रश्न पत्र भेजने के लिए कालेज की लगभग आउ बर्से लगाई गई थीं। इसकी निगरानी के लिए शिक्षा ग्इ था। इसका ानगराना का (लए) इसका विभाग के कर्मचारियों संग प्रत्येक बस में वो-वोपुलिस कर्मों मौजूद थे। इस अवसर पर सवल दस्तों की कुछ टीम भी मौजूद थी। जिल्ला विद्यालय निरीक्षक अवण

थी। िरणा विध्वालय निर्देशक अवध्य कुकर वारवन ने कथाय कि सुरक्ष और नियानों के मद्दे नगर देशन के सभी केंग्री के बहु के स्थान केंग्री केंग्री के बहु के अपने के मुद्र है। सभी सामें प्रक्रमान केंग्री कार्यों के किए पुलिसकर्मी भी तैनान रहें। किए मुला कोंग्री कार्यों केंग्री कुछ केंग्री कार्यों केंग्री कार्यों केंग्री क्षारी केंग्री कार्यों कार्यों केंग्री कार्यों केंग्री कार्यों कार्यों केंग्री कार्यों कार्यों केंग्री कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों केंग्री कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों केंग्री कार्यों कार्यों कार्यों केंग्री कार्यों कार्यो



गुरुवार को जीआईसी से बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र से जाने कालेज कर्मवारी।

### कंट्रोल रूम पर करें शिकायत

प्रभूति शिक्ष यह कहा । हाराजिया, पूर्वी गोर्ड गरीसा के दौरान नकत की सुवना व्य किसी भी तरह की शिकायत इन करने के लिए कट्टील रूप कर गठन कर दिया गया है। शिकायतकर्वा 0591-2416309 और 0591-2312607 पर 18 करवरी से संघर्क कर सकते हैं।

परीक्षा की तिथि घोषित मुरावाबाद । मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कालेज में बनन्यति विज्ञन की प्रयोग्नातक परीक्षा की लिख प्रीपेत कर दी गई है। परीक्षा 14 फरवरी 2015 को सुबह नी कने से आयोजना की जाएगी। यह जानकारी प्राचार्य ने दी है।

#### कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

परिवहन आयुक्त, उ॰प्र॰ लखनक के पत्र संख्या 65इन्फ/2015-28इन्फ/2012 दिनांक 16.01.2015 र कार्यानव पत्र संस्था 115 इन्फ/2015-बाहन आवंc/2012 दिनांक 28.1.2015 के द्वारा मरादाबाद सम्भा के निम्नवत् सहावक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं माल/यात्रोकार अधिकारियों से प्रवर्तन क कराने हेतु दिनांक 31.03.2015 तक के लिये एक-एक वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन

क्रम	अधिकारी का पदनाम	तैनाती का स्थान	जनपद का नाम जहां वाहन का संचालन होना है
157	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हितीय	मुरादानाद	मुरादाबाद
2	यात्री/मालकर अधिकारी	रामपुर	रामपुर
3	यात्री/मालकर अधिकारी	जे,पी.नगर	जे.पी.नगर
4	यात्री/मालकर अधिकारी	सम्भल	सम्भन

- ऐसे वाहन के लिये टाटा सुमो/बोलेरो मान्य होगा, जो 2012 मॉडल से पूर्व की न हो।सीटिंग क्षमता 7+1 से अधिक न हो। व्यक्त परिमट से आच्छादित व्यवसाधिक व्यक्त के रूप में पंजीकृत होना चाहिया कोटरान/टेण्डर देते समय व्यक्त के तैर परिमट, स्वस्थता प्रमाण, बीमा च कर जमा प्रमाण व चाहत चालक के वैध व्यवसाधिक लाईसेंस की छत्वाप्रति लगान होगा।चाहन के मूल प्रपन्न टेण्डर/कोटरान के खुलते समय प्रस्तुव करना होगा। ऐसे बहन का किरावा अधिकतम रु० 35,000 (पैतीस हजार रुपब मात्र ) देव होगा, जिसमें वाहन का ईंधन व रखरखा
- संबंधित समस्त क्य बाहन स्वामी द्वारा बहन किया जायेगा।

इच्छुक बाहन स्वामी किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त जनपदों के लिये अपनी बाहन का कोटेशन टिपनर टिनांव 19.02.2015 की सार्थ 5.00 बने तक सील बन्द लिफोफे में सम्मागीन रम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामपुर/के॰पी॰ नगर/सम्भल में नमा कर सकते हैं।उपरोक्तानसार प्राप्त कोटेशन/टेण्डर दिनां 21.02.2015 को सार्व 3.00 वर्जे उप परिवहन आकुन (परिक्षेत्र) बरेल्डे, की अच्यादत वाली समिति के समक्ष कैम्प कार्यालय सम्मागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद में विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मरादाबाद

### लघु कथा में दिखा जीवन का सार

मुखदाबाद | कार्यालय संवाददाता

हिन्दू कॉलेज में हिन्दी परिषद की ओर से हिन्दी विभाग में लघु कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सहित्य कला मंच के संस्थापक एवं हिन्दी सेवी गया। सहित्य कला मेन के संस्थापक एवं हिन्दी सेवी हाँ. महेश दिवाकर इस मध्र प्रयोग के सुश्यक्ष बने। लघु कथा रचना के दुः सिखाने के साथशी कार्यवाताला का रूप लेने वाली प्रतिवीधिता में बालमन ने जर्बरों को कविताओं का रूप दिया। स्तातक व्यास्तादक स्तर के इन विद्यार्थियों की

प्रतिभागिता के साथ ही अवयंत्रित अतिथि एवं निर्धायक मंडल के सदस्यों में शामिल साहित्यकार विदेश सिंह प्रज्ञायारी, विवेक निर्माल, अशोक विश्वोई एवं राम सिंह निशंक ने सभी निर्धार्थियों को साहित्यिक

ने उमंग के साथ प्रतिगोगिता में प्रतिपान किना। स्वरचित कविताओं से प्रतिभागी विद्यार्थियों ने सभी

विधा के गुर सिखाए। तुकात और सीमात की जानकारी दी।विद्यार्थियों

ने मार लिया मैदान

क लिए। किया। आरप्ता को आर से बालिंग में सरफराज ने तीन, पाशा ने दो मानस ने दो मराकूर ने दो बिकेटलिए। वह प्रतियोगिता अनुतासर में अवर्धीन्तर की गई। इसमें तमिलनाडू, हरियाचा, दिल्ली, यूपी, जम्मू, चंडीबह, आदि प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिख। मंडलीच क्रीड़ा अधिकारी नेपी पण्डे ने खिलाड़ियों

का उत्साहवर्धन किया। नरेंद्र कुमार कोच, सुशील शर्मा, नसिर कमाल आदि मौजूद रहे।

साहित्य विमर्श

हिन्दू कॉलेज में लघुकथा प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़चढ़ कर लिया हिस्सा

प्रतियोगिता में बाल मन ने शब्दों को दिया कविताओं का रूप

को चिंकत किया।आमंत्रित साहित्वकारों ने रचनापाठ भी किया। इस तरह विद्यार्थियों को मंत्रीय प्रस्तुति के लिए भी तैयार किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका क्रिन्य विभागाध्यक्ष डॉ. सुषमा पाल रही। संस्कृत विभाग में एसोसिस्ट प्रोफेसर डॉ. कमलेश शर्मा का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए साहित्यकार डॉ. महेश दिवाकर ने बहाया कि प्रतियोगिता में पहला-दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाले प्रतियागी हिन्दु कॉले न वार्षिकोत्सव में सम्मानित किए

### फुटबाल की मंडलीय रेलवे क्रिकेट एकेडमी टीम का हुआ गढन मुख्याबदा वरिवर्स स्पोट्सं एसेस्ट्रिस्ट्यन की ओर से क्रिकेट ट्निट में रेलवे क्रिकेट एकेहमी की टीम ने जम्मू को हराकर विवास हासिल किया। जम्मू का कार में अराएसी की तरफ से अक्षय ने 32, फरमान ने 22, अर्जुन ने 24 स्तों का बीमाना टीम के लिए किया। आरएसी की ओर से बालिंग में

मुतदबाद। कुटबाल की मंडलीयटीम का नुरुवार को चयन कर लिया गया। गंडलीयटीय में सिद्धार्थ कुनार, हमरान, कृष्णा गोधाल, निराग कीडाक, मोहम्मद अरीब, आश्रय गुपा, सालिनी उस्पानी, कनिष्क, फैज अब्बास, सम्बद्धा अर्सी, नवनीत गोसाई, चिन्मव

क्ता अल्याद, स्थाद रास्त, नवता ताराह, । यनव भारद्वाल, नकत झ, मैसूअल, सुरुशन व अस्मर की चुना गया। आरंक्षित में अलुज कुमार अनय प्रताप राणा, उकबाल, की चुना गया। नयन कोच कियंद्र कुमार, एसके क्षेत्री, नाटिर रुजा, संजीव धर्माण्याल, नास्त्रिय कालता सल्लीम, उस्मान, चेत्राराम, फारुख आदि में नुद्रा रही। चर्मानित मंडलीच टीन गोरखपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।

### नैक मूल्यांकन की बारीकियां बताई

बरेली प्रमुख संवाददाता

रछेलाखंडवियि में नैक मूल्यांकन को लेकर सभी हेड और ठीन की बैठक गुरुवार को हुई। इसमें विभागों से अपनी रिपोर्ट तैयार कर वैक स्टीयरिंग कमेटी को से अपनी सेपेट तैया कर नैक स्टीनिंद करेटी को स्व मर्च एक उपप्यक्रपार के को का गांवर डीन के कहा गया है कि विश्वानीय प्रोप्तरहत्त में सही आनकारी दी आए, क्वींकि नेक पीयर टीम विपाली का दीन वह पिक्काल सेपेटिकिंग्न में कार्यक्ष हा कुत्त्वत्व के प्रमाणित हुन्देश नकी अप्यक्ष हा में हुन् कुत्त्वत्व के प्रमाणित हुन्देश नकी अप्यक्ष हा में हुन् बैठक में आठ कुत्त्वत्वी हों, सीची सिंह, नैक स्टीनिंद कमेटी के कोडोर्सिनेटर पो, श्रीआप कुकरों स्थित कमेटी के कोडोर्सिनेटर पो, श्रीआप कुकरों स्थित राभी विभागों के डीन और से नैक एक्टिशन को लेकर पड़ रहे एकाट कह हमाना दिया। कहा गया कि प्रदेश कोरोस्तर भी मुनीसी नेक को अनियार्थ कर चुकी

है। डोन और हेंड को 52 प्वाइंट का प्रोफामां दिया गया है। दो मार्च तक विभागीय प्रोफाइल नैक कोऑर्डिनेटर को देने के साथ विवि की ओर से तैयार इंगेल पर भी भेजना होगा। इसके अलावा सभी विभागाध्यक्षीं और शिक्षकों को नैक की बारीकियाँ

आईक्यूप्सी पर सेमिनार आज : रुहेलखंड विवि में राकवार को इंटरनल क्वालिटी एरपोरेंस सेल राक्रवार को डटनला क्यालटा एरवारस सल ( आईक्यूसी) पर सीमानर होगा। इसमें बिलासपुर केंद्रीय विवित के पूर्व कुलपति डा. एमएसके खोळार रामिला होंगे। इसमें विविध से जुड़े कॉलिजों को क्यालटा एनुकेशन और इंप्रबस्ट्रक्यर के बारे में जानकारी दी जाएगी। वर्कार्यंच में बरेली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हा. आरमी सिंह, आईक्यूएसी कोऑडिनेटरब्रो, बीगीसिंह, ब्रो, बीआर ककरेती और डा. प्रदीप मिश्रा लेक्चर देंगे।

### PRAKASH WOOLLEN MILLS LIMITED

regd. office. 18th KM Stone, Delh-Moradebad Koad, NH:24, VIII-Amhera, Dist. J.P.Nagar-244 PH: 0591-22300919, Few-0591-22300919, Few-0591-22230019 (Sew-0591-222300) (Sew-0591-222300) (Sew-0591-22300) (Sew-0591-2

	Particulors	3 months ended 31-12-2014	Preceding 3 months ended 30.09.2014	Conveponding 3 months ended 31.12.2913 in the previous year	Year to date figures for surrent period ended 31,12,2014	year ended 31.12.2013	anded 31-03-201
		(Unaucited)	(Unaudited)	(Unavdited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited
-	Income from operations (4) Not salest income from operations (Not of exceed duty) (b) Other operating income	3786.37	2478.87	2996.46	7910.01	7194.41	8118.21
- 1	Total income from operations (net)	3786.37	2478.87	2996.46	7910.91	7194.41	8118.21
2.	Expenses						
	(a) Cost of materials consumed	1707.57	1384,81	1745.13	4515.70	4476.64	5007,44
	(b) Purchases of stock-in-trade	47.16	2.39	59.33	55.91	70.86	39.98
	(C) Changes in invertories of finished goods, work-	1082.48	588.61	503.49	1333.67	863,08	
	in-progress and stock-in-trade	a Company of	5,5399(+5)	25.5	e5:00:000		(210.30)
1	(d) Employee benefits expense	63.69	72.85	52.70	203.98	155.43	205.02
	(a) Depreciation and amortisation expense (f) Other expenses	96.45	62.55	91,81	200.78	155.40	249.49
		553.86	276,14	389,53	1149,44	679.40	1222,42
_	Total expenses Profil / (Loss) from operations before other income.	1550.00	2387.16	2780.99	7519.78	8759.01	7404.05
3	finance sests and exceptional items (1-2)	235.38	91.71	215,47	391,13	435,40	514.15
4	Other income	3.70	7.81	3.00	16.91	5.96	0.23
5	Profit / (Lose) from ordinary activities before finance	239.08	99.52	219.13	408.04	441,30	522.31
	costs and exceptional items (1 ± 4)			4.00111		- 17771770	
	Finance costs Profit / (Loss) from ordinary activities after finance	(30.97)	(10.82)	(50.58)	(80.32)	(147.50)	(197.57)
	costs but before exceptional items (5 ± 6)  Exceptional items	208.11	88.70	165.75	327.72	291,88	324.82
	Profit / (Losa) from ordinary activities before Tax (7 + 8)	200.11	60.70	160.75	327.72	293.88	504.02
	Too Expense	(67.54)	(20.70)	(67.75)	(441.33)	(85.47)	(901.45)
	Net Profit (Less) from ordinary activities after Tax (9+10)		58.01	121.00	216.39	201.41	223.37
	Extraordinary items (net of tax expense) Fis Last	160.57	58.501	121.00	215.39	201.41	223.37
	Ret Profit / (Loss) for the period (11 + 12)	149.57	58.91	121.00	215,39	205,41	223.37
	Share of Profit / (Loss) of Associates*	144.37	30.91	121.00	210.30	209,41	443.01
15	Mnorty interest*	-		-		-	
16	Het Frofti (Loss) after Taxes, Minority Interest and Share of Profit (Loss) of Associates 113 414 +159*	149.57	58.01	121.00	216.39	201,41	223.37
	Paid-up aguity share capital (Face Value of Rt. 16/- per Share)	1025.95	1025.98	839.59	1025.98	834,59	1925,98
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	77			-	-	1556.17
	Earnings per share (before extraordinary items) (not annualised) :						
	(a) Besic	1.37	0.57	1.32	2.11	3.29	3.11
	(b) Diuted	1.37	0.57	1.32	2.11	3.29	3.11
10#	Earnings per share (after extraordinary itams) (not annualised) :	Castle.		1000			
	(R) Basic	1.37	0.57	1.32	2.11	329	3.11
	(b) Diuted	1.37	0.57	1.32	2.11	329	3,11
-	PART II	THE PERSON		200	775,115	17771	1107.00
A	PARTICULARS OF SHAREHOLDING						
1	Public shanihoiding	3600230	3799549	2345830	3003230	2040650	3259750
	Number of shares     Percentage of shareholding	37.12%	37.03%	25.10%	37.12%	25.16%	31.77%
2	Promoters and Promoter Group Shareholding ** a) Plindged / Encumbered			200000000000000000000000000000000000000			
	-Number of shares -Percentage of shares (as a % of the total	NIL NIL	NIL NIL	NIL NIL	NIL NIL	NIL NIL	MIL
	shareholding of promoter and promoter group)  Personings of charge iss a % of the total share capital of the company)	NIL	NL	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Non encumbered -Number of shares	6451620	6460201	7000000	6451520	7000000	7600000
	-Percentage of shares (as a % of the total shareholding of the Promoter and Promoter group)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	-Percentage of shares (as a % of the total share						
	capital of the company)	52.58%	62.97%	74.99%	62.88%	74.90%	6623%

The above results was reviewed by the Audit Committee and approved by the Sound of Oradons at their respective meetings held on 12th February, 2015. The company is suggested in the Mankatt bearines, therefore, there is only one repostable segment in accordance with the Accounting Standards on Segment.

111









